

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 जनवरी 2015—पौष 29, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23 जुलाई 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित ऊर्जा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) ऊर्जा विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

अनुसूची—“दो”

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित पद / संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	प्रबंधक / सहायक अभियंता (विद्युत)	277			2	0	1	3	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित / श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	प्रबंधक / सहायक अभियंता (सिविल)	15			1	0	1	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	प्रोग्रामर / सहायक अभियंता (सूं.प्रो.)	32			2	0	0	2	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	प्रबंधक (मा.स.)	65			2	3	1	6	-
	लेखाधिकारी	54			2	0	1	3	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	योग . .	443	443	26	9	3	4	16	
तृतीय श्रेणी.	सहायक प्रबंधक/ कनिष्ठ यंत्री (विद्युत).	743			10	0	7	17	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित/ श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	सहायक प्रबंधक/ कनिष्ठ यंत्री (सिविल)	21			2	0	1	3	
	राजस्व अधिकारी	458			14	4	14	32	-
	परीक्षण सहायक	500			15	0	15	30	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	कार्यालय सहायक श्रेणी-3.	871			17	17	17	51	-
	योग . .	2593	2593	156	58	21	54	133	
चतुर्थ श्रेणी.	लाईन परिचारक	1430		86	15	0	0	15	पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर अस्थि बाधित को एक प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं.
	योग . .	1430	1430	86	15	0	0	15	

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित पद / संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक अभियंता (विद्युत).	124			2	0	1	3	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित / श्रवण बाधित में भी
	सहायक अभियंता (सिविल).	1			0	0	0	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	प्रोग्रामर	76		2	0	2	4		दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	विधि अधिकारी	1		0	0	0	0	-	
	लेखाधिकारी	44		2	0	1	3		दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	योग . .	246	246	15	6	0	4	10	
तृतीय श्रेणी.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत).	411		0	0	0	0		पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर सिविल के एक पद को अस्थि बाधित हेतु चिन्हांकन किया गया है.
	कनिष्ठ अभियंता (सिविल).	12		1	0	0	1		
	कार्या. सहा. श्रेणी-3	391		10	8	10	28	-	
	परीक्षण सहायक	845		25	0	25	50		पदों का कार्य जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अतः दृष्टि बाधित हेतु छूट प्रदान की गयी है.
	वाहन चालक	11		0	0	0	0	-	
	कन्सोल आपरेटर	3		0	0	0	0	-	
	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट.	1		0	0	0	0	-	
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	10		1	0	0	1	-	
	योग . .	1684	1684	101	37	8	35	80	-
चतुर्थ श्रेणी.	लाईन परिचारक	3108		31	0	0	31		पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर अस्थि बाधित को एक प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं.
	भृत्य	24		3	0	2	5	-	
	योग . .	3132		188	34	0	2	36	

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित पद / संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक यंत्री (टी एण्ड डी). सहायक अभियंता (सिविल).	258 2			10 0	0 0	3 0	13 0	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित / श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	लेखाधिकारी	46			2	0	1	3	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	प्रबंधक (मा.स.)	13			1	0	1	2	—तदैव—
	प्रबंधक (सू.प्रौ.)	10			1	0	0	1	—तदैव—
	चिकित्सा अधिकारी	2			0	0	0	0	-
	योग . .	331	331	19	14	0	5	19	
तृतीय श्रेणी.	कनिष्ठ यंत्री (टी एण्ड डी). कनिष्ठ यंत्री (सिविल)	554 14			17 1	0 0	7 1	24 2	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित/ श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.)	52			2	2	2	6	-
	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	56			3	0	3	6	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	विधि सहायक	16			1	1	0	2	श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गई है.
	भण्डार सहायक	20			1	0	1	2	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	मीटर रीडर	74			4	0	4	8	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	परीक्षण सहायक	680			21	0	19	40	—तदैव—
	कार्यालय सहायक श्रेणी-3	1452			40	10	40	90	-
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	23			1	0	0	1	दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	योग . .	2941	2941	177	91	13	77	181	
चतुर्थ श्रेणी	लाईन परिचारक	2172	2172	130	21	0	0	21	पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर अस्थि बाधित को एक प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं.
	योग . .	2172	2172	130	21	0	0	21	

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद / संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक अभियंता (विद्युत).	702			25	0	10	35	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित / श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	सहायक अभियंता (सिविल).	47			1	0	1	2	
	पाली रसायनज्ञ	55			2	0	2	4	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	चिकित्सा अधिकारी	31			2	0	0	2	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	मैनेजर (एच.आर.)	23			1	0	0	1	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	लेखाधिकारी	44			2	0	1	3	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	जनसंपर्क अधिकारी	1			0	0	0	0	-
	विधि अधिकारी	6			0	0	0	0	-
	योग . .	909	909	54	33	0	14	47	
तृतीय श्रेणी.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत).	276			3	0	3	6	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित/ श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	प्रयोगशाला तकनीशियन.	7			1	0	0	1	-
	फार्मासिस्ट	31			1	0	1	2	-
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	89			5	0	0	5	दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	कार्या. सहायक श्रेणी-3.	238			5	5	5	15	-
	संयंत्र सहायक	1736			0	0	0	0	पद पूर्णतः जोखिम भरे होने से चिन्हांकन से छूट प्रदान की गयी है.
	अग्निशामक	69			0	0	0	0	—तदैव—
	स्टाफ नर्स	41			2	0	0	2	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	रेडियो ग्राफर	7			0	0	0	0	-
	ड्रेसर	11			1	0	0	0	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	ई.सी.जी. तकनीशियन.	5			0	0	0	0	-
	मानचित्रकार (विद्युत)	10			0	0	0	0	कार्य की प्रकृति को देखते हुए पदों का चिन्हांकन से छूट प्रदान की गई है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	वाहन चालक	2			0	0	0	0	-
	ए.एन.एम. (मिडवाइफ).	8			1	0	1	2	-
	पट्टी बंधक	11			0	0	0	0	कार्य की प्रकृति को देखते हुए पदों का चिन्हांकन से छूट दी गई है.
	योग . .	2541	2541	152	19	5	10	34	

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद / संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक यंत्री (टी एण्ड डी).	162			4	0	2	6	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित / श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	सहायक अभियंता (एल.डी.)	25			2	0	0	2	
	सहायक अभियंता (सिविल)	18			1	0	1	2	
	लेखाधिकारी	35			1	0	1	2	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	कंपनी सचिव	1			0	0	0	0	-
	मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव	2			0	0	0	0	-
	योग . .	243	243	15	8	0	4	12	

तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ यंत्री (टी एण्ड डी).	325			15	0	4	19	पदों का कार्य मैदानी तथा जोखिम भरा होने से दृष्टि बाधित से पद नहीं भरे जा सकते हैं. अस्थि बाधित/ श्रवण बाधित में भी निर्धारित 2% अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः उक्तानुसार छूट प्रदान की गयी है.
	कनिष्ठ यंत्री (एल.डी.)	31			1	0	1	2	
	कनिष्ठ यंत्री (सिविल)	19			1	0	0	1	
	कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (ट्रांसमिशन कंपनी एवं एल.डी. के कुल सम्मिलित पद)	172			4	4	4	12	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक (ट्रांसमिशन कंपनी एवं एल.डी. के कुल सम्मिलित पद)	25			2	0	0	2	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	रेखण कार्यालय सहायक श्रेणी-एक	4			0	0	0	0	-
	योग . .	576	576	35	23	4	9	36	
चतुर्थ श्रेणी	लाईन परिचारक	425			5	0	0	5	पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर अस्थि बाधित को एक प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं.
	परीक्षण परिचारक	200			2	0	0	2	—तदैव—
	संयंत्र परिचारक (एल.डी.)	7			0	0	0	0	-
	सिविल परिचारक	51			2	0	2	4	दृष्टि बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	योग . .	683	683	41	9	0	2	11	

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

विद्युत कंपनी का नाम.—मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद / संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक यंत्री (टी एण्ड डी)	29			1	0	0	1	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित के संवर्गों को छूट प्रदान की गयी है.
	सहायक अभियंता (सिविल)	8			1	0	0	1	
	चिकित्साधिकारी	3			0	0	0	0	-
	विधि अधिकारी	2			1	0	0	1	-
	कंपनी सचिव (नया संवर्ग)	1			0	0	0	0	-
	योग . .	43	43	3	3	0	0	3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ यंत्री (सिविल) रेडियोग्राफर	12 2			0 0	0 0	0 0	0 0	- -
	मोटर ड्राइवर	18			0	0	0	0	पद पूर्णतः जोखिम भरे होने से छूट प्रदान की गई है.
	स्टाफ नर्स	8			0	0	0	0	-
	ई.सी.जी. टेक्नशियन	2			0	0	0	0	-
	ड्रेसर	1			0	0	0	0	-
	लेब टेक्नशियन	3			1	0	0	1	-
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	18			2	0	0	2	दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. अतः छूट प्रदान की गयी है.
	फार्मासिस्ट	3			1	0	0	1	-
	योग . .	67	67	4	4	0	0	4	
चतुर्थ श्रेणी	सिविल अटेंडेंट	30			0	0	0	0	कार्य की प्रकृति के कारण छूट प्रदान की गई है.
	सुरक्षा सैनिक	20			0	0	0	0	पद जोखिम भरे होने से छूट प्रदान की गई है.
	वार्ड बाय	10			1	0	0	1	-
	खानसामा	6			0	0	0	0	-
	भृत्य	30			5	0	0	5	-
	योग . .	96	96	6	6	0	0	6	

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.